

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-सा.-30042024-253974
SG-DL-W-30042024-253974

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5]	दिल्ली, अप्रैल 19—अप्रैल 25, 2024, बृहस्पतिवार/ चैत्र 30—वैशाख 5, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 24,29 &31
No. 5]	DELHI, APRIL 19—APRIL 25, 2024, THURSDAY/ CHAITRA 30—VAISAKHA 5, 1946	[N.C.T.D. Nos. 24,29 &31

भाग II—खण्ड 1
PART II—Sec. 1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters; reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 22 मार्च, 2024

सं.20/स्था.-I/ईI-4/डी.एच.सी.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय के माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एतद् द्वारा इस न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक/रेस्टोरर के पद को दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें), 1972 की अनुसूची- I में ग्रुप 'बी' पदों (अराजपत्रित) के रूप में पुनः वर्गीकृत करते हैं।

उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेशानुसार,
जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्था.-I)

HIGH COURT OF DELHI :NEW DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 22nd March, 2024

No. 20/Estt.-I/EI-4/DHC.—In exercise of the powers vested under Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Acting Chief Justice of this Court hereby re-classifies the post of Junior Judicial Assistant/ Restorer in this Court, as Group 'B' posts (Non-Gazetted) in Schedule-I of Delhi High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 1972.

The above amendment shall come into force with immediate effect.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.-I)

अधिसूचना

दिल्ली, 18 नवम्बर, 2023

सं.113/ई I-4/स्था.-I/डी.एच.सी.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें), 1972 की अनुसूची- II (क) और II (ख) के अंत में दी गई टिप्पणी को निम्नलिखित रूप में सहर्ष संशोधित करते हैं :

““विभागीय परीक्षा के साथ-साथ सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति करते समय मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार के अंक लिखित परीक्षा के कुल अंकों के 15% से अधिक नहीं होंगे।”

“साक्षात्कार में कोई न्यूनतम योग्यता अंक नहीं होंगे।”

टिप्पणी: उपरोक्त संशोधन ग्रुप 'सी', ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित), ग्रुप 'बी' (राजपत्रित), ग्रुप 'ए' पदों के संवर्गों में सीधी भर्ती के साथ-साथ विभागीय परीक्षाओं में भी लागू होगा। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेशानुसार,

कंवल जीत अरोड़ा, महानिबंधक

NOTIFICATION

Delhi, the 18th November, 2023

No. 113/EI-4/Estt.-I/DHC.—In exercise of the powers vested under Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice of this Court has been pleased to amend the note at the end of Schedule-II(A) and II(B) to Delhi High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 1972 as under:

““Viva-voce/ interview marks shall not be more than 15% of the total marks of the written examination while making appointment through departmental examination as well as direct recruitment”

“there will be no minimum qualifying marks in the interview”

Note: The above amendment shall be applicable in the cadres of Group 'C', Group 'B' (Non-Gazetted), Group 'B' (Gazetted), Group 'A' posts both in direct recruitment as well as departmental examinations. This shall come into force with immediate effect.

By Order,

KANWAL JEET ARORA, Registrar General

अधिसूचना

दिल्ली, 25 अप्रैल, 2024

सं.31/जी-2/सामान्य-I/ओ.सी./टी.एच.सी./डी.एच.सी.—दिल्ली उच्च न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम V) की धारा 139 (ख) 1976 के संशोधन अधिनियम संख्या 104 द्वारा यथा संशोधित एवं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 297 (1)(ख) तथा शपथ अधिनियम, 1969 की धारा 3(2)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश खंड IV, अध्याय 12-ख के परिच्छेद 5

(सहपठित दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 7) में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार तथा इस न्यायालय के परिपत्र संख्या 332/सामान्य-2/डी.एच.सी. दिनांक 14/9/2001, जिसमें शपथ आयुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं, में निर्धारित शर्तों के अन्वये इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक या इस न्यायालय के अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, शपथपत्रों के शपथकर्ताओं को शपथ और प्रतिज्ञान दिलाने के लिए, तीस हज़ारी न्यायालय परिसर, दिल्ली में निम्नलिखित अधिवक्ताओं की नियुक्ति शपथ आयुक्त के रूप में सहर्ष करता है :

क्रम सं.	अधिवक्ता का नाम
1.	सुश्री प्रीति कुमारी, अधिवक्ता
2.	सुश्री अलीशा, अधिवक्ता

न्यायालय के आदेशानुसार,
कंवल जीत अरोड़ा, महानिबंधक

NOTIFICATION

Delhi, the 25th April, 2024

No. 31/G-2/Genl.-I/OC/THC/DHC.—In exercise of powers conferred by Section 139(b) of the Code of Civil Procedure (Act V of 1908) as amended by Amendment Act No.104 of 1976 and Section 297(1)(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) and Section 3(2)(a) of the Oaths Act, 1969, High Court of Delhi has been pleased to appoint the following advocates as Oath Commissioner in **Tis Hazari Courts Complex, Delhi**, for a period of two years from the date of issue of this Notification or until further orders of this Court, whichever be earlier, for administering oaths and affirmations to deponents of affidavits in accordance with terms specified in paragraph 5 of Chapter 12-B, Punjab High Court Rules and Orders Volume IV (read with Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966) and subject to the conditions laid down in this Court's circular No. 332/Genl-II/DHC dated 14/9/2001 containing instructions to Oath Commissioners issued by this Court:-

Sl. No.	Name of Advocates
1.	Ms. Preeti Kumari, Advocate
2.	Ms. Alisha, Advocate

By Order of the Court,
KANWAL JEET ARORA, Registrar General